



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]
No. 1]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड
अधिमूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980

का० प्रा० 1 (अ).— भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रेल (भाण्डागारण और घाट भाड़ा) नियम, 1958 में आगे और मशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

- (1) ये नियम रेल (भाण्डागारण और घाट-भाड़ा) (मशोधन) नियम, 1981 कहलायेंगे।
- (2) ये 24 जनवरी, 1981 से प्रयुक्त होंगे।

2. रेल (भाण्डागारण और घाट भाड़ा) नियम, 1958 के

(1) नियम 1 की धारा (क) की तालिका में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् —

	ग्रुप I स्टेशन	ग्रुप II स्टेशन	ग्रुप III स्टेशन
	र०	र०	र०
प्रथम दिन	0 50	0 40	0 20
दूसरा दिन	0 75	0 50	0 30
तीसरा दिन			
और उसके बाद	1 00	0 70	0 40

बाद

कोयला पत्थर जलाऊ लकड़ी आदि याक माल के लिए निशुल्क समय से अधिक प्रति दिन या दिन के किसी अंश के लिए प्रति टन या टन के किसी अंश के लिए दर

	र०	र०	र०
प्रथम तीन दिन	8	5	3
उसके बाद	10	6	5

(2) नियम 6 की तालिका में

(1) कालम 3 के अन्तर्गत मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये —
“वनस्पति तेल टकी माल डिब्बों को छोड़कर, सभी माल डिब्बों के लिए प्रथम दिन के लिए 60 पैसे, दूसरे दिन के लिए 80 पैसे और तीसरे दिन तथा उसके बाद के लिए 1 र० वनस्पति तेल टकी माल डिब्बों के लिए प्रथम दिन के लिए 60 पैसे, दूसरे दिन के लिए 1 र० और तीसरे दिन तथा उसके बाद के लिए 2 र०”

(2) कालम 3 के अन्तर्गत मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये —
“वनस्पति तेल टकी माल डिब्बों को छोड़कर, सभी माल डिब्बों के लिए प्रथम दिन के लिए 60 पैसे, दूसरे दिन के लिए 80 पैसे और तीसरे दिन के लिए 1 र० वनस्पति तेल टकी माल डिब्बों के लिए प्रथम दिन के लिए 60 पैसे, दूसरे दिन के लिए 1 र० और तीसरे दिन तथा उसके बाद के लिए 2 र०”

(3) नियम 15 में शब्द ‘एक रुपया पचास पैसे’ जहाँ कहीं भी आने हो, उनके स्थान पर शब्द ‘दो रुपये’ प्रतिस्थापित किये जायें।

[स० टी० सी० 1/80/201/8]

के० बालाचन्द्रन,

मन्त्रि रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पवन सयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1980

S. O. 1(E.) —In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of Sub-Section (1) of Section 47 of the Indian Rail-

ways Act, 1890, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) (Amendment) Rules, 1981

(2) They shall come into force with effect from the 24th day of January, 1981.

2. In the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958:—

(1) in the table to clause (a) of Rule 1 for the entries under column 4 the following entries shall be substituted namely:—

	Group I Stations	Group II Stations	Group III Stations
	Rs.	Rs.	Rs.
1st day	0.50	0.40	0.20
2nd day	0.75	0.50	0.30
3rd day and thereafter	1.00	0.70	0.40

Rate per tonne or part of a tonne per day or part of a day in excess of the free time.
for goods in bulk such as coal, stone, fire-wood etc.

	Rs.	Rs.	Rs.
First 3 days	8	5	3
Thereafter	10	8	5

(2) in the table to Rule 6:—

(i) against item (i), under column 3, for the entry, the following entry shall be substituted namely:—

“60 paise for the first day, 80 paise for the second day and Rupee one for the third day and thereafter for all wagons except vegetable oil tank wagons. 60 paise for the first day, Re. 1 for the second day and Rs. 2 for the third day and thereafter for vegetable oil tank wagons.”

(ii) against item (ii) under column (3) for the entry the following entry shall be substituted, namely:—

“60 paise for the first day, 80 paise for the second day and Rupee one for the third day and thereafter for all wagons except vegetable oil tank wagons. 60 paise for the first day, Re. 1 for the second day and Rs. 2 for the third day and thereafter for vegetable oil tank wagons.”

(3) in rule 15 for the words ‘Rupee One and fifty paise’ wherever they occur the words ‘Rupees Two’ shall be substituted.

[No TCI/80/201/8]

K. BALACHANDRAN,
Secy. Railway Board,
and ex-Officio Jt. Secy. to the Govt. of
India.